

मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस 191) के सहयोगी रफीक अहमद की अवैध तथा अपराधिक गतिविधियों से अर्जित भूखण्ड (02 करोड़ रुपये कीमती) 14(1)गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मऊ पुलिस द्वारा किया गया जब्त-

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान में क्रम में आज दिनांक 17.11.2022 को क्षेत्राधिकारी नगर, राजस्व टीम व भारी पुलिस बल की उपस्थिति में, मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस 191) के सहयोगी अभियुक्त रफीक अहमद पुत्र हाजी वकील निवासी पठानटोला कस्बा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जो लगभग ढाई दशक से अपराध में संलिप्त है तथा आईएस 191 गैंग का सहयोगी है। यह अपने गैंग के संरक्षण में स्वयं तथा गैंग के सदस्यों द्वारा निर्दयतापूर्वक पशुओं का वध करके अवैध मांस के व्यापार से पर्यावरण को दूषित करने जैसे संगीन अपराध कारित कर अवैध तरीके से व्यवसाय से अपराधिक बल का लाभ पाते हुये अकूत धन इकठ्ठा किया गया है। अपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त रहकर अपराध से अर्जित किये गये धन से अपने नाम नगर क्षेत्र में स्थित मौजा पठानटोला परगना व तहसील सदर आ0सं0 220 मि0 रकबा 40 कड़ी भूखण्ड जिसका कुल अनुमानित मूल्य लगभग 02 करोड़ रुपये है , को अंतर्गत धारा 14 (1) गैंगेस्टर एक्ट कुर्क किया गया।

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित तीन अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.11.2022 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान चालीसवा करमा मोड के पास से मु0अ0सं0 598/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तगण महेन्द्र सोनकर पुत्र बरसाती सोनकर निवासी हलीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ, गनिका यादव पुत्र इन्द्रदेव यादव निवासी करैला थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़, मुन्ना यादव पुत्र रामधारी यादव निवासी बलेदुपुर थाना सारनाथ वरुणा जनपद वाराणसी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 20 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 17.11.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा अच्छेलाल यादव, हवलदार, देवेन्द्र, विरेन्द्र निवासीगण अवस्था इब्राहीम, शंभू निवासी सुलतानीपुर थाना चिरैयाकोट, थाना घोसी पुलिस द्वारा सदाफल, शिवप्रकाश निवासीगण नथनपुर थाना घोसी, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इन्तियाज, सरफराज निवासीगण मुंशीपुरा थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा विजय कुमार निवासी खीरीकोटा, देवानन्द, रामध्यान निवासीगण शीतलपुर, मनीष मिश्रा, दिनेश,

राजेश, हितेश निवासीगण करौंदी नरायणपुर थाना मधुबन, थाना सरायलखंडी पुलिस द्वारा निहाल अहमद, अरविन्द चौरसिया निवासीगण रैकवारेडीह, अखिलेश निवासी दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर, थाना रामपुर पुलिस द्वारा कर्मतुल्लाह अंसारी निवासी काठतरांव थाना रामपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।